



# अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : [abvpkendra@gmail.com](mailto:abvpkendra@gmail.com)

दिनांक: 30 जून 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

## अभाविप ने यूजीसी अध्यक्ष को नए अकादमिक सत्र के सम्बन्ध में दिया ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना की दूसरी लहर के कारण विश्वविद्यालयों में लम्बित परीक्षाओं, नये शैक्षिक सत्र में प्रवेश और यथासंभव उच्च शिक्षा की कक्षाएं शुरू करने आदि विषयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित किया है।

हाल ही में सी.बी.एस.ई. ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के मूल्यांकन पद्धति निर्धारित की है और सभी राज्य शिक्षा बोर्ड ने उसी प्रकार की पद्धति को अपनाकर मूल्यांकन की दिशा में आगे जाएंगे। इसी को ध्यातव्य रखते हुये अभाविप ने ज्ञापन में जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के बीच ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षाएं यथासंभव शीघ्र आयोजित कराने, अंतिम वर्ष के छात्रों के प्रश्नपत्र के वैकल्पिक संयोजन के आधार पर अनिवार्य रूप से परीक्षा आयोजित करने तथा तकनीकी और पारंपरिक पाठ्यक्रमों के नए अकादमिक सत्र परिस्थितियों के अनुरूप शीघ्र शुरू करने आदि बिंदुओं पर सुझाव दिए गए हैं।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा, “कोरोना महामारी के कारण पिछले दो अकादमिक सत्र में शिक्षा जगत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। महामारी के कारण छात्रों की सीखने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ा है। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विस्तृत ज्ञापन के द्वारा छात्रों के अकादमिक सत्र समय से शुरू करने आदि विषयों को प्रमुखता से उठाया है। हम आशा करते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शीघ्र छात्रों के व्यापक हितों में कदम बढ़ाएगा।”

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)